

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जुलाई 2024—आषाढ़ 12, शक 1946

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2024

फा.क्र. 1837-2024-इक्कीस-ब-(दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को विधान सभा उप निर्वाचन 2024 का कार्य संपन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

## कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

फा. क्र. 9 (क)-चार-2024-सेक्टर म.-10540.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2024

विधान सभा उप निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किये जाने एवं उन्हें विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

विधान सभा उप निर्वाचन 2024 सम्पन्न कराने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किये जाने एवं उन्हें विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किये जाने के संबंध में छिन्दवाड़ा जिले से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है :-

स. क्र.	जिले का नाम	विवरण	पत्र क्र. एवं दिनांक	अधिकारियों की संख्या
1.	छिंदवाड़ा	प्रस्ताव	2006/वि.स. उप निर्वाचन 2024, दिनांक 17-06-2024	91
कुल				91

प्रमोद कुमार शुक्ला, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा

क्र. 2006-वि.स. उप निर्वा. 2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून 2024

विधानसभा उप निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम - छिन्दवाड़ा

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	सत्यम कोल	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य गांधी विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
2	श्री अमित तिवारी	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
3	राजेश उइके	उपयंत्री	संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
4	जगमोहन सिंह पूषाम	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
5	अरविन्द धुर्वे	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातक महाविद्यालय अमरवाड़ा (उच्च शिक्षा)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
6	रामसिंह राजपूत	पबंधक	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियालयन इकाई छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
7	विश्वप्रकाश चौधरी	सहायक यंत्री	पंच परियोजना जल संसाधन छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
8	प्रकाश चौरसिया	सहायक पबंधक	म प्र यामीण सड़क वि प्राधि परियोजना छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
9	संतकुमार सिरयाम	सहायक यंत्री	कार्य यंत्री, पंच व्यववर्तन बांध जल संसाधन चौरई	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
10	मदनलाल पखाले	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
11	हेमसिंह मरावी	उपयंत्री	कार्यालय अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मंडल छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
12	कन्हैया झरबडे	सह प्राध्यापक	शासकीय स्वशासी स्नात. महाविद्यालय छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
13	जे अल हनोते	सहायक प्राध्यापक	राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिन्दवाड़ा, उच्च	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
14	रत्नेश कुमार वैद्य	बाल विकास परियोजना अधिकारी	परियोजना कार्यालय हरई (महिला एवं बाल विकास)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
15	योगेश कुमार उईके	कार्यपालन अभियंता	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. अमरवाड़ा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
16	अरविन्द तिवारी	सहायक यंत्री	म प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
17	डॉ शशिकांत सिंह यादव	प्राचार्य	शासकीय महाविद्यालय हरई (उच्च शिक्षा)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
18	आश कुमार यादव	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय हरई (उच्च शिक्षा)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
19	कमलेश कोचले	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय हरई (उच्च शिक्षा)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
20	डॉ शैलेन्द्र ठाकुर	पशु चिकि० सहाय शल्यज्ञ	पशु चिकित्सालय मुरलाखापा (पशुपालन विभाग)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50
21	आर एस टेकाम	सहायक अनुसंधान अधिकारी	पंच परियोजना जल संसाधन विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	50

## विधानसभा उप निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम - छिंदवाड़ा						
क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जानी प्रस्तावित है।	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
22	शालिग्राम मेराबी	उपयंत्री	म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
23	हरेसिंह परते	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग (भवन)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
24	सुरेश आहिरवार	सहायक प्राध्यापक	राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
25	हितेश शर्मा	कार्यपालन अभियंता	लेब उर्जा विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
26	नर्मदप्रसाद मलगाम	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
27	पियुष डेहरिया	उपयंत्री	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अमरवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
28	सुरेन्द्र कुमार झारिया	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
29	राकेश कुमार मेश्राम	कार्यक्रम सहायक	कृषि विज्ञान केन्द्र तामिया	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
30	सुनील कुमार श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
31	अजय कुमार कच्छ	व्याख्याता	शास हायर सेकेंडरी अतरवाड़ा (स्कूल शिक्षा)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
32	डॉ. विपिन मोखलगाय	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बिछुआ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
33	अरुण सिंग	वनक्षेत्रपाल	कार्य आयोजना इकाई छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
34	विनोद कुमार परस्ते	प्रभारी उप संचालक	नगर तथा ग्राम निवेश छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
35	विजय कलमधार	सहायक प्राध्यापक	राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
36	जितेन्द्र झरबड़े	सहायक प्राध्यापक	प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
37	दीपक कुमार सरेयाम	उपयंत्री	कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
38	सुरेशप्रसाद जंधेला	व्याख्याता	एकसीलेस स्कूल अमरवाड़ा (स्कूल शिक्षा)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
39	डॉ० संकेत चौकसे	सहायक प्राध्यापक	राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
40	जी एस डेहरिया	उप आयुक्त	उप आयुक्त सहकारिता छिंदवाड़ा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
41	रामनाथ झारिया	प्रोफेसर	शासकीय स्नातक महाविद्यालय अमरवाड़ा (उच्च)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
42	हरिशंकर शुक्ल	व्याख्याता	एकसीलेस स्कूल अमरवाड़ा (स्कूल शिक्षा)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO

**विधानसभा उप निर्वाचन 2024**

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम - छिंदवाड़ा

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
43	प्रभाकर टेकाम	सहायक यंत्री	पंच व्यववर्तन परि नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
44	डॉ. शेखर ब्रम्हने	सहायक प्राध्यापक	शास स्वशासी स्नातकोत्तर महा छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
45	मुकेश कौशल	सहायक प्राध्यापक	राजमाता शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
46	मनीष कुमार बोरकर	क्षेत्र संयोजक	जनजाति कार्य विभाग छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
47	राहुल सिंह	सहायक यंत्री	कार्य यंत्री, पंच व्यववर्तन बांध जल संसाधन चौरई	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
48	विनोद माहरपवार	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्वशासी स्नात. महाविद्यालय छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
49	अंकित जैन	उपयंत्री	कार्य अभि(सं/सधा) पूर्व संभा म प्र पू छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
50	प्रमोद सिंह	उपवनमंडलाधिकारी	पश्चिम उत्पादन वन मंडल छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
51	ओमप्रकाश अहिरवार	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातक महाविद्यालय अमरवाड़ा (उच्च शिक्षा)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
52	शैलेन्द्र सिंह	सहायक नियंत्रक	सहायक नियंत्रक नाप तोल छिंदवाड़ा-छिंदवाड़ा-छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
53	किशोरीलाल वाडिवा	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	दशियन वन मंडल छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
54	पी के पांडे	संभागीय उपायुक्त	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर अधि छिंदवाड़ा संभाग	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
55	नवीन कुमार चौरसिया	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बिफुआ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
56	जयशिव प्रसाद सूर्यवंशी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	संभा.उपा.वा.कर छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
57	सुरेश कुमार परते	सचिव	कृषि उपज मंडी छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
58	भूपेन्द्र मानवारे	सहायक यंत्री	नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
59	राजवीर परमार	उपयंत्री	नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
60	शैलेश बागडे	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्वशासी स्नात. महाविद्यालय छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
61	श्री प्रशांत बेलवंशी	सहायक प्राध्यापक	राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
62	नीरज कुमार	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बिफुआ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
63	पी. पवार	सहायक प्रबंधक	म प्र ग्रामीण सड़क वि प्राधि परियों क 1 छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO

## विधानसभा उप निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम - छिंदवाड़ा

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
64	अशोक हेडाड	सहायक संचालक	सहायक संचालक रेशम छिंदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
65	डॉ. अजीत डेहरिया	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बिफुआ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SO
66	श्री पी. के. सोनेकर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
67	श्री राजेश घुर्वे	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
68	श्री एस. के. मोरले	कृषि विकास अधिकारी	सहायक मिट्टी परिक्षण अधिकारी छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
69	श्री योगेश भलावी	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
70	श्री रंजीत बागडे	कृषि विकास अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तामिया	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
71	श्री लखन आम्रवशी	ग्रा. उद्या. वि. अधिकारी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी तामिया	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
72	श्री सिद्धार्थ डोगरे	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी	जनपद पंचायत हरई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
73	श्री अरविंद पराडकर	ब्लॉक समन्वयक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
74	श्री हारून अंसारी	ब्लॉक समन्वयक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
75	श्री मदन लाल काकोडिया	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
76	श्री राजेन्द्र साहू	पंचायत समन्वयक अधिकारी	मुख्य कार्य. अधिकारी हरई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
77	श्री इन्द्र कुमार झारिया	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उपसंचालक उद्यान छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
78	श्री यशवंत पहाडे	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
79	श्री विजय सरयाम	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
80	श्री सुबोध कुमार ठाकरे	उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विस्तार अधिकारी अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
81	श्री अमिजीत मरावी	ए डी ओ	जनपद पंचायत अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	SST
82	श्री एम.आर. मेहरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	FST
83	श्री राहुल बोरकर	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	FST
84	श्री आर.एन. सिंग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत हरई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	FST
85	श्री ओमकार प्रसाद कुशराम	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत हरई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	FST

**विधानसभा उप निर्वाचन 2024**

**विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव**

जिले का नाम - छिंदवाड़ा

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
86	श्री रगसा धुर्ये	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	FST
87	श्री अशोक साधिया	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत अमरवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	FST
88	श्री सुभाष चंद्र यादव	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	VST
89	श्री नरेन्द्र अहरवार	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री प्रा.या.सेवा छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	VST
90	श्री नितीन मुकेश ब्रम्हे	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री प्रा.या.सेवा छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	VST
91	श्री उत्तम सिंह परते	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री प्रा.या.सेवा छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	VST

विधानसभा उप निर्वाचन 2024 अंतर्गत सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने अधिकारी / कर्मचारियों की जानकारी जिला छिंदवाड़ा

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्र.	सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल अधिकारी के कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी / कर्मचारी की संख्या	SST टीम की संख्या	SST के कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी / कर्मचारी की संख्या	VST टीम की संख्या	VST के कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी / कर्मचारी की संख्या	FST टीम की संख्या	FST के कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी / कर्मचारी की संख्या
1	अमरवाड़ा - 123	65	9	16	3	4	6	6

हस्ता/-  
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.